

21Pa 1

१० जुलाई २०२१

परिचय परीक्षा

# सूरीनाम हिन्दी परिषद्

“जय प्रकाश हिन्दी संस्थान”

प्रश्न पत्र 1



सूचना: सभी प्रश्नों के उत्तर पाठ्यपुस्तक के आधार पर लिखे।

समय: 3 घंटे

Cijfer:  $\frac{Score+10}{10}$

परीक्षा क्रमांक: \_\_\_\_\_

क. किन्हीं तीन (3) पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए -

[21]

- मेरो मन अनत कहाँ सुख पावै।  
जैसे उड़ी जहाज को पंछी, फिरी जहाज पर आवै ॥  
कमलनैन कौ छौंड़ी महातम और देव कौ ध्यावै।  
परम गंग कौ छौंड़ि पियासौ , दुरमति कूप खनावै ॥  
जिहिं मधुकर अबुज-रस चाखौ , क्यों करील-फल भावै।  
सूरदास प्रभु कामधेनु तजि , छेरी कौन दुहावै ॥
- कबिरा सोई पीर है, जो जानै पर पीर।  
जो पर पीर न जानई, सो पाफिर बे पीर ॥
- रहिमन निज मन की व्यथा , मनहीं राखौ गोय।  
सुनि इठलैहैं लोग सब , बाँटि न लैहैं कोय ॥
- भूषण-भारु संभारिहै क्यों इहिं तन सुकुमार।  
सुधे पाई न घर परैं सोभा ही के भार ॥

ख. किन्हीं तीन (3) प्रश्नों के उत्तर लिखिए -

[21]

- "अधिकार" कविता में कवि क्या स्पष्ट करना चाहता है?
- "दोनों ओर प्रेम पलता है" कविता का सार खिए।
- "ताज" कविता में कवि क्या स्पष्ट करना चाहता है?
- "मेरी आँखों की पुतली" काव्य का अर्थ समझाइए।

ग. सूरदास की कृष्णा भक्ति का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए।

[8]

अथवा

रहीम के दोहे उपदेश प्रधान हैं। उदहारण सहित परिचय दीजिए।

घ. किन्हीं दो [२] पात्रों का चरित्र चित्रण कीजिए।

[16]

- शिवाजी
- दिवाकर
- कर्नल होम्स

प.प.

ड. किन्हीं दो (2) प्रश्नों के उत्तर लिखिए।

[16]

1. "यह मेरी जन्मभूमि है" एकांकी का सारांश लिखिए।
2. शिवाजी का सच्चा स्वरूप" एकांकी से क्या शिक्षा मिलती है?
3. "आवाज़ का नीलाम" एकांकी की कथावस्तु अपने शब्दों में लिखिए।

च. पठित एकांकियों में से आपको कौन-सी एकांकी के पात्र सर्वाधिक प्रभावित किया है और क्यों? कारण सहित लिखिए।

[8]

~ समाप्त ~